



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 10, 2017/पौष 20, 1938

No. 76]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 10, 2017/PAUSA 20, 1938

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2017

का.आ. 86(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इससे पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 868, तारीख 12 मई, 2016 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड(ii), तारीख 14 मई, 2016 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 13.79 हेक्टेयर (लगभग) या 34.05 एकड़ (लगभग) और ऐसी भूमि में या उस पर के सभी अधिकारों के अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और झारखंड राज्य सरकार के परामर्श करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि इसे संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट 13.79 हेक्टेयर (लगभग) या 34.05 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में या उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाने चाहिए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि अनुसूची में वर्णित 13.79 हेक्टेयर (लगभग) या 34.05 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में या उस पर के सतह अधिकार अर्जित किए जाते हैं।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या ईसीएल/आरजीओएम/जीएम(आई/सी)/पीसीडी एण्ड ई/सीबीए(चरण-X)/80, तारीख 9 जुलाई, 2016 का निरीक्षण उपायुक्त, जिला गोड्डा (झारखंड) के

कार्यालया में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाऊस स्ट्रीट, कोलकाता -700 001 के कार्यालय में या निदेशक तकनीकी (प्रचालन), ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, संकतोडिया, डाकघर दिशेरगढ़, जिला बर्द्धवान-713 333 (पश्चिमी बंगाल) के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

ललमटिया कोल खनन ब्लॉक (चरण- X)

जिला- गोड्डा (झारखण्ड)

(रेखांक संख्या ईसीएल/आरजीओएम/जीएम(आई/सी)/पीसीडी एण्ड ई/सीबीए(चरण-X)/80, तारीख 9 जुलाई, 2016)

सभी अधिकार:

क्रम सं.	मौजा/ ग्राम	थाना	ग्राम संख्या	जिला	क्षेत्र हेक्टेयर में (लगभग)	क्षेत्र एकड़ में (लगभग)	टिप्पणियां
1.	डकैता	ललमटिया	44	गोड्डा	13.79	34.05	भाग
कुल :					13.79	34.05	

कुल क्षेत्र: 13.79 हेक्टेयर (लगभग) या 34.05 एकड़ (लगभग)

मौजा डकैता न. 44 के अर्जित किए गए प्लॉट संख्याक : 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 528, 531, 532, 534, 619, 620, 621, 622, 623 और 624.

सीमा – वर्णन:

- क1-क2 रेखा, मौजा डकैता संख्याक 44 और मौजा लोहण्डिया संख्याक 45 के पूर्वी सम्मिलित पर स्थित बिन्दु 'क1' से प्रारंभ होती है और मौजा डकैता संख्याक 44 का प्लॉट संख्याक 227, 226, 233 और 235 की उत्तरी सीमा और प्लॉट संख्याक 235 की पश्चिमी एवं उत्तरी सीमा से गुजरती हुई पुनः 451 की उत्तरी सीमा से होते हुए मौजा डकैता संख्याक 44 का प्लॉट संख्याक 451 के उत्तर-पश्चिमी कोना पर स्थित बिन्दु 'क2' पर मिलती है।
- क2-क3 रेखा, मौजा डकैता संख्याक 44 का प्लॉट संख्याक 451 के उत्तर-पश्चिमी कोना पर स्थित 'क2' बिन्दु से प्रारंभ होती है और मौजा डकैता संख्याक 44 का प्लॉट संख्याक 451 का पश्चिमी सीमा, प्लॉट संख्याक 453 और 454 के उत्तरी सीमा तथा प्लॉट संख्याक 454, 455, 522, 528, 520, 519, 518, 517, 516 और 531 की पश्चिमी सीमा से गुजरती हुई मौजा डकैता संख्याक 44 का खसरा संख्याक 531 के दक्षिण-पश्चिमी कोना पर स्थित बिन्दु 'क3' पर मिलती है।
- क3-क4 रेखा, मौजा डकैता संख्याक 44 का प्लॉट संख्याक 531 के दक्षिणी-पश्चिमी कोना पर स्थित 'क3' बिन्दु से प्रारंभ होती है और प्लॉट संख्याक 531 और 532 की दक्षिणी सीमा से गुजरती हुई मौजा डकैता संख्याक 44 का प्लॉट संख्याक 532 के दक्षिण सीमा पर स्थित बिन्दु 'क4' पर मिलती है।
- क4-क5 रेखा, मौजा डकैता संख्याक 44 का प्लॉट संख्याक 532 के दक्षिणी सीमा पर स्थित 'क4' बिन्दु से प्रारंभ होती है और प्लॉट संख्याक 534 के पश्चिमी सीमा और प्लॉट संख्याक 619 की उत्तरी सीमा से गुजरते हुए मौजा डकैता संख्याक 44 का प्लॉट संख्याक 619 के दक्षिण-पश्चिमी कोना पर स्थित बिन्दु 'क5' पर मिलती है।

- क5—क6 रेखा, मौजा डकैता संख्याक 44 का प्लाट संख्याक 619 के उत्तरी—पि चमी कोना पर स्थित 'क5' बिन्दु से प्रारंभ होती है और प्लाट संख्याक 619,622 और 623 के पि चमी सीमा से गुजरते हुए मौजा डकैता संख्याक 44 का प्लाट संख्याक 623 के दक्षिण—पि चमी कोना पर स्थित बिन्दु 'क6' पर मिलती है ।
- क6—क7 रेखा, मौजा डकैता संख्याक 44 का प्लाट संख्याक 624 के दक्षिणी—पि चमी कोना पर स्थित 'क6' बिन्दु से प्रारंभ होती है और प्लाट संख्याक 624 के उत्तरी सीमा से गुजरते हुए मौजा डकैता संख्याक 44 का प्लाट संख्याक 624 के उत्तरी—पि चमी सीमा पर स्थित बिन्दु 'क 7' पर मिलती है ।
- क7—क8 रेखा, मौजा डकैता संख्याक 44 का प्लाट संख्याक 624 के उत्तरी—पि चमी सीमा पर स्थित 'क7' बिन्दु से प्रारंभ होती है और मौजा डकैता संख्याक 44 एवं मौजा ललमटिया संख्याक 43 के सम्मिलित सीमा तथा मौजा डकैता संख्याक 44 के प्लाट संख्याक 624 के पि चमी सीमा से गुजरते हुए मौजा डकैता संख्याक 44 एवं मौजा ललमटिया संख्याक 43 के सम्मिलित सीमा पर स्थित मौजा डकैता संख्याक 44 का प्लाट संख्याक 624 के दक्षिणी—पि चमी सीमा पर स्थित बिन्दु 'क8' पर मिलती है ।
- क8—क9 रेखा, मौजा डकैता संख्याक 44 का प्लाट संख्याक 624 के दक्षिणी—पि चमी सीमा पर स्थित 'क8' बिन्दु से प्रारंभ होती है और मौजा डकैता संख्याक 44 के प्लाट संख्याक 624 के दक्षिणी सीमा से गुजरते हुए मौजा डकैता संख्याक 44 की सीमा पर स्थित प्लाट संख्याक 624 का दक्षिणी—पूर्वी कोना पर स्थित बिन्दु 'क9' पर मिलती है ।
- क9—क1 रेखा, मौजा डकैता संख्याक 44 के सीमा पर स्थित प्लाट संख्याक 624 के दक्षिणी—पूर्वी कोना पर स्थित 'क9' बिन्दु से प्रारंभ होती है और मौजा डकैता संख्याक 44 एवं मौजा लोहण्डिया संख्याक 45 के पूर्वी सम्मिलित सीमा से गुजरती हुई, मौजा डकैता संख्याक 44 और मौजा लोहण्डिया संख्याक 45 के पूर्वी सम्मिलित सीमा पर स्थित बिन्दु 'क1' पर मिलती है ।

[फा. सं. 43015 / 14 / 2014—पीआरआईडब्ल्यू—I/खंड II]

आर.पी.गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2017

S.O. 86(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 868, dated the 12th May, 2016 issued under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said act) and published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 14th May, 2016, the Central Government gave notice of its intention to acquire all rights in or over such land measuring 13.79 hectares (approximately) or 34.05 acres (approximately) in the locality specified in the Schedule appended to that notification;

And whereas, the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the aforesaid report and after consulting to the Government of Jharkhand, is satisfied that the lands measuring 13.79 hectares (approximately) or 34.05 acres (approximately) and all rights in or over such lands as described in the Schedule appended hereto, should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act the Central Government hereby declares that all rights in or over such land measuring 34.05 hectares (approximately) or 13.79 acres (approximately) as described in the Schedule are hereby acquired.

The plan bearing number ECL/ RGOM/ GM(I/C)/ PCD&E/ CBA(Phase-X)/80, dated the 9th July, 2016 of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Deputy Commissioner, District Godda (Jharkhand) or in the office of the Coal controller, 1, Council House Street, Kolkata – 700 001 or in the office of the Director Technical (Operation), Eastern Coalfields Limited, Sanctoria, Post Office Dishergarh, District Burdwan-713 333 (West Bengal).

SCHEDULE

Lalmatia Coal Mining Block (Phase – X)

District - Godda (Jharkhand)

(Plan bearing number ECL/RGOM/GM(I/C)/PCD&E/CBA(Phase-X)/80, dated the 9th July,2016)

All Rights:

Sl. No.	Mouza / Village	Thana	Village number	District	Area in hectares (approximately)	Area in acres (approximately)	Remarks
1.	Dakaita	Lalmatia	44	Godda	13.79	34.05	Part
Total :					13.79	34.05	

Total Area: 13.79 hectares (approximately) or 34.05 acres (approximately)

Plot numbers acquired in Mouza Dakaita No. 44 : 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 528, 531, 532, 534, 619, 620, 621, 622, 623 and 624.

Boundary Description:

A1 – A2: Line starts from point number A1 situated on eastern common mouza boundary of Dakaita number 44 and Lohandia number 45, passes along northern boundary of plot number 227,226,233 and 235 of mouza Dakaita, western and northern boundary of plot number 235, again passes along northern boundary of plot number 451 and meets at point number A2 situated at north western corner of plot number 451 of mouza Dakaita number 44.

A2 – A3: Line starts from point number A2, situated on north western corner of plot number 451 of mouza Dakaita number 44, passes along western boundary of plot number 451 of mouza Dakaita number 44, northern boundary of plot number 453 and 454, western boundary of plot number 454, 455, 522, 528, 520, 519, 518, 517, 516, 531 and meets at point number A3 situated at south western corner of plot number 531 of mouza Dakaita number 44.

A3 - A4: Line starts from point number A3, situated at south western corner of plot number 531 of mouza Dakaita number 44, passes along southern boundary of plot number 531 and 532, and meets at point number A4 situated at southern boundary of plot number 532 of mouza Dakaita number 44.

A4 – A5: Line starts at point number A4 situated at southern boundary of plot number 532 of mouza Dakaita number 44, passes along western boundary of plot number 534, northern boundary of plot number 619 and meets at point number A5 situated at north-western corner of plot number 619 of mouza Dakaita number 44.

A5 – A6: Line starts from point number A5 situated at north-western corner of plot number 619 of mouza Dakaita number 44, passes along western boundary of plot number 619, 622 and 623 and meets at point number A6 situated at south-western corner of plot number 623 of mouza Dakaita number 44.

A6 – A7: Line starts from point number A6 situated at south-western corner of plot number 623 of mouza Dakaita number 44, passes along northern boundary of plot number 624 and meets at point number A7 situated on north-western boundary of plot number 624 of mouza Dakaita number 44.

A7 – A8: Line starts from point number A7 situated on north-western boundary of plot number 624 of mouza Dakaita number 44, passes along common mouza boundary of Lalmatia number 43 and Dakaita number 44, and western boundary of plot number 624 and meets at point number A8 situated on south-western boundary of plot number 624 of mouza Dakaita number 44, on common mouza boundary of mouza Dakaita number 44 and Lalmatia number 43.

A8 – A9: Line starts from point number A8 situated on south-western boundary of plot number 624 of mouza Dakaita number 44, on common mouza boundary of mouza Dakaita number 44 and Lalmatia number 43, passes along southern boundary of plot number 624 of mouza Dakaita number 44 and meets at point number A9 situated at south-eastern corner of plot number 624 on mouza boundary of Dakaita number 44.

A9 – A1: Line starts from point number A9 situated at south-eastern corner of plot number 624 on mouza boundary of Dakaita number 44, passes along eastern common mouza boundary of Dakaita number 44 and Lohandia number 45 and meets at point number A1 situated on eastern common mouza boundary of Dakaita number 44 and Lohandia number 45.

[F. No. 43015/14/2014-PRIW-I/Vol.II]

R. P. GUPTA, Jt. Secy.